

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] दिल्ली, सितम्बर 7—सितम्बर 13, 2018, बृहस्पतिवार/भाद्र 16—भाद्र 22, 1940
 No. 12] DELHI, SEPTEMBER 7—SEPTEMBER 13, 2018, THURSDAY/BHADRA 16—BHADRA 22, 1940

भाग II-II

PART II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं
 Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
 GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 220/2014

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में
 विवेक वर्मा

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

फ़्यूकोन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड और अन्य

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 433 (ई), 434 और 439(1) (बी) के तहत याचिका के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी की समाप्ति हेतु याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.03.2018 को विवेक वर्मा निवासी जी-3, बी / 28, शालीमार गार्डन एक्सट-II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गयी थी तथा कथित याचिका को दिनांक 11.10.2018 सुबह 10:30 को न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

कथित याचिका पर किसी आदेश को पारित करने के समर्थन या विरोध के इच्छुक किसी ऋणदाता अंशदानी या किसी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी के पास स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना, अपने नाम एवं पता सहित, इस प्रकार भेजें की अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकतम याचिका के लिए सुनवाई हेतु नियत तिथि अर्थात् 11.10.2018 से 05 दिन पहले पहुंच जाये तथा इस उद्देश्य हेतु

सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किसी ऋणदाता या अंशदानी को इसके लिए निर्धारित शुल्क भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

याचिका के विरुद्ध में प्रयोग किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी शपथ पत्र को न्यायालय में दाखिल करना होगा तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई के लिए नियत तिथि से कम से कम 05 दिन पहले देना होगा।

हस्ताक्षर

(डी.के. सिंह)

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय से सम्बद्ध

8वां फ्लोर, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली

दूरभाष 011-24693393 फैक्स: नं० 011-24691009

[विज्ञापन – ए/II/II/16/18]

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27/04/2018

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)**

IN

C.P. NO. 220/2014

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

A N D

IN THE MATTER OF:-

VIVEK VERMA

...PETITIONER

VERSUS

FUCON TECHNOLOGIES LIMITED & ORS.

(IN PROV. LIQN.)

...RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433(E), 434 and 439(1) (B) of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court at New Delhi on 05.03.2018 was presented to the Hon'ble High Court by the Vivek Verma, R/o. G-3, B/28, Shalimar Garden Extn-II, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh creditor of the Respondent Company and the said petition is directed to be heard before the Court on 11.10.2018 at 10.30 A.M.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 11.10.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the undermentioned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the undermentioned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd./-

(D.K. SINGH)

OFFICIAL LIQUIDATOR

ATTACHED TO THE HON'BLE HIGH

COURT OF DELHI,

8th FLOOR, A WING, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
PH. NO. 011-24693393.
Fax: No. 011-24691009
[ADVT. A/II/II/16/18]

PLACE: NEW DELHI

DATED 27/04/ 2018.

**दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में
(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)
कंपनी याचिका संख्या 759/2015
कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में
तथा
निम्नलिखित के मामले में**

इण्टर स्कैन प्राइवेट लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

ब्रांडविएव मेडिएकोम प्राइवेट लिमिटेड

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) तथा 433 (एफ) 434 तथा धारा 439 के साथ पढ़े माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा तिथि 22.05.2017 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति तथा (वाइडिंग अप) हेतु एक याचिका इण्टर स्कैन प्राइवेट लिमिटेड 29, शिवाजी मार्ग अपोजिट कैम्पा कोला, नई दिल्ली -110015, जो की प्रतिवादी कंपनी का लेनदार है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 सी. पी. संख्या 759/2015 में शासकीय समापक को कंपनी के अन्तिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 20.09.2018 को सुबह 10.30 बजे के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 20.09.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी। कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देना चाहिए।

हस्ताक्षर

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

दिल्ली उच्च न्यायालय

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबंध

8 वां फ्लोर, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली

फोन नं. : 011- 24693393

[विज्ञापन - ए/II/II/15/18]

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक — 2018

**IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)**

IN

COMPANY PETITION NO. 759/2015

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:

INTER SCAN PVT. LTD.

...PETITIONER

VERSUS

**BROADVIEW MEDIACOM
PRIVATE LIMITED**

...RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433(e) read with Sections 434 and 439 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court of Delhi on 22.05.2017 was presented by Inter Scan Private Limited. 29 Shivaji Marg, Opposite Campa Cola, New Delhi-110015 and that the said petition is fixed for hearing before the Court on 20-09-2018 at 10.30 A.M.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 20.09.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd/-

(D.K.SINGH)

OFFICIAL LIQUIDATOR

ATTACHED TO THE HON'BLE HIGH COURT OF DELHI

8th FLOOR, A WING, LOK NAYAK BHAWAN,

KHAN MARKET, NEW DELHI-110003

PH. NO. 011-24693393.

[ADVT A/II/II/15/18]

PLACE: NEW DELHI

DATED: — 2018

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में
(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)
कंपनी याचिका संख्या 182/1999
कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा
निम्नलिखित के मामले में

रेडएक्सपो एजी

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

जयना टाइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) धारा 434 तथा धारा 439 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा तिथि 01.05.1999 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति तथा (वाइंडिंग अप) हेतु एक याचिका रेडएक्सपो एजी. की एक याचिका जो कि मनीष लम्बा, अधिवक्ता, फ्लैट नं. 5 और 7, 10, हैली रोड, नई दिल्ली, द्वारा प्रस्तुत की गयी थी और कथित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2018 को सुबह 10.30 बजे सुनवाई हेतु निर्देशित है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 31.10.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी।

कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देना चाहिए।

रजिस्ट्रार

दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली

हस्ताक्षर

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

8 वां तल, लोक नायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली, 110003

फोन नं. - 011-24693393

[विज्ञापन ए /II/II/07/18]

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक 03/07/2018

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL JURISDICTION)

IN
COMPANY PETITION NO. 182/1999
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956
AND

IN THE MATTER OF
RADEXPO AG

...PETITIONER

VERSUS

JAYNA TIME INDUSTRIES LTD.

...RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433(e) read with Sections 434 and 439 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court of Delhi on 01.05.1999 was presented by Mr. Manish Lamba, Advocate, Flat No.5 & 7, 10 Helly Road, New Delhi and that the said petition is directed to be heard before the Court on 31.10.2018 at 10.30 A.M.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 31.10.2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

REGISTRAR
DELHI HIGH COURT
NEW DELHI

Sd/-
(D.K. SINGH)
OFFICIAL LIQUIDATOR
ATTACHED TO THE HON'BLE HIGH COURT
8th FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
Phone: 011-24693393
[ADVT.A/II/II/07/18]

PLACE: NEW DELHI
DATED: 03/07/2018